

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 1—अप्रैल 7, 2017 (चैत्र 11, 1939)

No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 1—APRIL 7, 2017 (CHAITRA 11, 1939)

इस भाग में भिन्न पृथक् संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 फरवरी 2017

सं. डीपीपर्स-I/2017/96/3/02/2012—श्री नवीन कुमार सिंह, भा.पु.सेवा(झारखंड:1996), संयुक्त निदेशक, दि.वि.पु.स्थापना,
के.अ.ब्यूरो की सेवा प्रत्यार्पण पर झारखंड सरकार को दिनांक 31.01.2017 के अपराह्न से वापस की जाती हैं।

जी. के. वर्मा

उप-निदेशक (कार्मिक)

के.अ.ब्यूरो, मु.

गृह मंत्रालय

(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 मार्च 2017

सं. ओ.दो. 7299/2016—कार्मिक.डी.ए.-4—सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवा से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्रीमती जीवन ज्योति, उप कमाण्डेन्ट (ईरला-7299), 233 (महिला) बटालियन, केरिपुबल, गुप केन्द्र कैम्पस, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ने दिनांक 28/02/2017 (अपराह्न) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 28/02/2017 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 15 मार्च 2017

सं. ओ.दो. 4003/14—कार्मिक डीए-6—कम्पोजिट अस्पताल, के0रि0पु0 बल, भुवनेश्वर के डा0 नलाबोलु शेखर रेड्डी, चिकित्साधिकारी (सहायक कमाण्डेंट), ईरला सं0-10426 का दिनांक 28/02/2017 को गोंव — मुल्लुपादु, जिला— कृष्णा (आन्ध्र प्रदेश) में हुए एक बस दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण इस बल की नफरी से उनका नाम दिनांक 28/02/2017 (अपराहन) से हटाया गया है।

सुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 14 मार्च 2017

सं. ई-33013(1)/त्यागपत्र-1/एमडीएस/2017/कार्मिक.1/147—राष्ट्रपति, श्री मोहम्मद दानिश समद, सहायक कमाण्डेंट/कार्य (परि.), केऔसुब निसा हैदराबाद, का त्याग-पत्र दिनांक 02.03.2017 (अपराह) से स्वीकार करते हैं।

ह./— अपठनीय
महानिदेशक/केऔसुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा

(आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 16 मार्च 2017

सं. ए.एम.जी.-1/प्रशासन.-1/2(1)राजपत्र/2015/1372—महानिदेशक लेखापरीक्षा, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से पे मेट्रिक्स के लेवल-8 में सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के रूप में आमेलित/पदोन्नति होने के आदेश देते हैं:—

क्रम संख्या	नाम सर्वश्री/सुश्री	तिथि	आमेलन/पदोन्नति
1.	वीना वांचू	30.11.2015	आमेलन
2.	गीता	10.06.2016	पदोन्नति
3.	अमित दहिया	10.06.2016	पदोन्नति
4.	साजन श्रीवास्तव	17.02.2017	पदोन्नति
5.	वपिल देव	17.02.2017	पदोन्नति

जसपाल सिंह
उपनिदेशक (प्रशासन)

सं. ए.एम.जी.-1/प्रशासन.-1/2(1)राजपत्र/2016/1371—महानिदेशक लेखापरीक्षा, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से पे मेट्रिक्स के लेवल-9 में अंतिम आधार पर लेखापरीक्षा अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के रूप में पदोन्नति होने के आदेश देते हैं:—

क्रम संख्या	नाम सर्वश्री/सुश्री	तिथि
1.	संध्या आर नायर	01.04.2016
2.	रंजीत	01.04.2016
3.	रविंदर नाथ कुमार	01.04.2016
4.	आनंद मोहन भाटिया	01.04.2016

क्रम संख्या	नाम सर्वश्री / सुश्री	तिथि
5.	गुंजेश्वर प्रसाद कर्ण	01.07.2016
6.	सुधीर दत्त शर्मा	01.09.2016
7.	संदीप डे	23.11.2016
8.	पी एस सुब्रमन्यन	26.12.2016
9.	सुमीता सतीजा	01.02.2017
10.	राजेश कुमार गुप्त	20.02.2017
11.	मारग्रेट सुक्रीता कुजूर	08.03.2017

जसपाल सिंह
उपनिदेशक (प्रशासन)

महालेखाकार (लेखा एवं हक.)

कोलकाता-7000001, दिनांक 20 जनवरी 2016

सं. प्रशासन-I/1034-XXXIII/2015-16/338—महालेखाकार (लेखा एवं हक.), पश्चिम बंगाल के दिनांक 18.01.2016 के आदेशानुसार एस.ए.एस. (अगस्त, 2014) परीक्षा उत्तीर्ण एवं वर्तमान में सहायक लेखा अधिकारी (तदर्थ) के रूप में कार्य कर रहे सर्वश्री अलकेन्दु प्रधान, अब्दुल वारिस मंडल एवं सुबीर कुमार नंदी, सभी वरिष्ठ लेखाकारों को रु. 9300-34800/- के साथ ग्रेड-पे रु. 4800/- के पे-बैंड में प्रभावी दिनांक 01.02.2016 (पूर्वाहन) या उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक, जो भी बाद में हो, से सहायक लेखा अधिकारी के संवर्ग में पदोन्नत किया जाता है।

तैनाती आदेश अलग से जारी किए जाएँगे।

मुकुट मुखर्जी
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक 31 मार्च 2016

सं. प्रशासन-I/1034-XXXIII/2015-16/414—महालेखाकार (लेखा एवं हक.), पश्चिम बंगाल के दिनांक 29.03.2016 के आदेशानुसार एस.ए.एस. (मार्च, 2015) परीक्षा उत्तीर्ण एवं वर्तमान में सहायक लेखा अधिकारी (तदर्थ) के रूप में कार्य कर रहे श्री चंदन दास-I, वरिष्ठ लेखाकार को रु. 9300-34800/- के साथ ग्रेड-पे रु. 4800/- के पे-बैंड में प्रभावी दिनांक 01.04.2016 (पूर्वाहन) या उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक, जो भी बाद में हो, से सहायक लेखा अधिकारी के संवर्ग में पदोन्नत किया जाता है।

तैनाती आदेश अलग से जारी किए जाएँगे।

मुकुट मुखर्जी
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक 22 अप्रैल 2016

सं. प्रशासन-I/1034-XXXIII/2016-17/17—महालेखाकार (लेखा एवं हक.), पश्चिम बंगाल के दिनांक 15.04.2016 के आदेशानुसार एस.ए.एस. (मार्च, 2015) परीक्षा उत्तीर्ण एवं वर्तमान में सहायक लेखा अधिकारी (तदर्थ) के रूप में कार्य कर रहे श्री शंकर राय, वरिष्ठ लेखाकार को रु. 9300-34800/- के साथ ग्रेड-पे रु. 4800/- के पे-बैंड में प्रभावी दिनांक 01.05.2016 (पूर्वाहन) या उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक, जो भी बाद में हो, से सहायक लेखा अधिकारी के संवर्ग में पदोन्नत किया जाता है।

तैनाती आदेश अलग से जारी किए जाएँगे।

मुकुट मुखर्जी
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक 22 अगस्त 2016

सं. प्रशासन-I/1034-XXXIII/2016-17/174—महालेखाकार (लेखा एवं हक.), पश्चिम बंगाल के दिनांक 17.08.2016 के आदेशानुसार एस.ए.एस. (मार्च, 2015) परीक्षा उत्तीर्ण एवं वर्तमान में सहायक लेखा अधिकारी (तदर्थ) के रूप में कार्य कर रहे श्री अरूप साहा, वरिष्ठ लेखाकार को केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियमावली, 2016 के पे-मैट्रिक्स स्तर 08 में प्रभावी दिनांक 01.09.2016 (पूर्वाहन) या उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक, जो भी बाद में हो, से सहायक लेखा अधिकारी के संवर्ग में पदोन्नत किया जाता है।

तैनाती आदेश अलग से जारी किए जाएँगे।

मुकुट मुखर्जी
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

(कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय)

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

अहमदाबाद, दिनांक 17 मार्च 2017

सं. आरओसी/गुज/560(5)/एफटीई/2016/12978—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्र.सं.	सीन नंबर	कम्पनी के नाम
1	U74140GJ2015PTC082603	वायएस फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2	U52100GJ2011PTC064074	स्वयंम ट्रेडलिक प्राइवेट लिमिटेड
3	U14101GJ2013PTC074469	विष्णु ग्रेनाइट और संगमरमर प्राइवेट लिमिटेड
4	U72900GJ2015PTC083750	राइफल लिफाफे आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
5	U74999GJ2016FTC093509	आईटी मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6	U72900GJ2007PTC051854	इन्फिन वेब सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
7	U72900GJ2015PTC081812	परपेच्युअल सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड.
8	U80903GJ2012PTC072405	साई हैमवान एडुमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
9	U24100GJ2014PTC080846	विस्फोट फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
10	U52100GJ2008PTC054709	शक मल्टीटाड प्राइवेट लिमिटेड
11	U63000GJ2014PTC079004	हबीब-अल-मुतावकिल ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड टूर्स एंड
12	U72900GJ2015PTC084728	शाह सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
13	U24297GJ2012PTC071486	इममरेशन कोटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
14	U45201GJ2008PTC054902	बल्लार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
15	U67120GJ2010PTC061325	धर्मिक स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
16	U27106GJ2004PTC043592	देवेश्वर स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
17	U26990GJ2011PTC065414	इकोपोझो एशक्रेट प्राइवेट लिमिटेड
18	U74220GJ2012PTC069496	इनविसेफ कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	सीन नंबर	कम्पनी के नाम
19	U01119GJ2014PTC078954	श्रीकुंज एगो इंडस्टिज प्राइवेट लिमिटेड
20	U74140GJ2015PTC083832	इसक्रोव डील प्राइवेट लिमिटेड
21	U45400GJ2013PTC075943	देव आशिष बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड
22	U74140GJ2015OPC082081	रिबेट सोल्युशन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड

विजय खुबचंदानी
कंपनी रजिस्टार
गुजरात

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
(DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT)

New Delhi-110003, the 27th February 2017

No. DP/Pers.I/2017/96/03/02/2012—Services of Shri Navin Kumar Singh, IPS(JH:1996), JD, DSPE, CBI have been placed back at the disposal of Government of Jharkhand with effect from the afternoon of 31.01.2017 on repatriation.

G. K. VERMA
Deputy Director (Pers.)
CBI : HO

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DIRECTORATE GENERAL, CRPF)

New Delhi- 110003, the 9th March 2017

No. O.II.7299/2016-Pers.DA.4—Consequent on acceptance of his notice of voluntary retirement from Government service by the competent authority, Smt. Jeevan Jyoti, Dy. Commandant (IRLA-7299) of 233(M) Bn, CRPF, GC campus Lucknow(UP) has relinquished his post on 28/02/2017(AN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 28/02/2017(AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers) Dte

The 15th March 2017

No. O.II-4003/2014-Pers(MOs)—Dr. Nalabolu Shekar Reddy, Medical Officer (Assistant Commandant), IRLA 10426 of Composite Hospital, CRPF, Bhubaneswar expired on 28/02/2017 in a Bus accident occurred at Mullupadu village, Distt- Krishna(AP). Accordingly, his name stands deleted from the rolls of the Force from 28/02/2017 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers) Dte

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 14th March 2017

No. E-33013(1)/Resig-1/MDS/2017/Pers.I/147—The President is pleased to accept the resignation of Shri Md. Danish Samad, Assistant Commandant/Exe (Prob.) of CISF. NISA. Hyderabad with effect from 02.03.2017 (A/N).

Sd/-ILLEGIBLE
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
(ECONOMIC AND SERVICE MINISTRIES)

New Delhi-110002, the 16th March 2017

No. AMG-I/Admn.I/2 (1)/GZT/2016/926—The Director General of Audit, Economic and Service Ministries, New Delhi has ordered promotion / absorption of the following officials as Assistant Audit Officer (Group 'B' Gazetted) in Level – 8 of Pay Matrix (7th CPC), from the date shown against them :—

Sl. No.	Name S/Shri/Ms.	Date	Absorption / Promotion
1.	Veena Wanchoo	30.11.2015	Absorption
2.	Geeta	10.06.2016	Promotion
3.	Amit Dahiya	10.06.2016	Promotion
4.	Sajan Srivastava	17.02.2017	Promotion
5.	Kapil Dev	17.02.2017	Promotion

JASPAL SINGH
Deputy Director (Admn.)

No. AMG-I/Admn.I/2 (1)/GZT/2016/927—The Director General of Audit, Economic and Service Ministries, New Delhi has ordered promotion of the following Assistant Audit Officers as Audit Officer (Group 'B' Gazetted) in level 9 of Pay Matrix (7th CPC), from the date shown against them :—

Sl. No.	Name S/Shri/Ms.	Date of promotion
1.	Sandhya R. Nair	01.04.2016
2.	Ranjeet	01.04.2016
3.	Ravinder Nath Kumar	01.04.2016
4.	Anand Mohan Bhatia	01.04.2016
5.	Gunjeshwar Prasad Karn	01.07.2016
6.	Sudhir Dutt Sharma	01.09.2016
7.	Sandip Dey	23.11.2016
8.	P.S.Subramanian	26.12.2016
9.	Sumita Satija	01.02.2017
10.	Rajesh Kumar Gupt	20.02.2017
11.	Margret Sukrita Kujur	08.03.2017

JASPAL SINGH
Deputy Director (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), WEST BENGAL

Kolkata-700001, the 20th January 2016

No. Admn.I/1034-XXXIII/2015-16/ 338—Under kind orders of the Accountant General (A&E), West Bengal dated 18.01.2016 S/Shri Alakendu Pradhan, Abdul Warish Mondal and Subir Kumar Nandy, all S.A.S (August, 2014) Examination passed Sr. Accountants, now functioning as Asstt. Accounts Officer (Ad hoc) are promoted to the cadre of Assistant Accounts Officer in the Pay Band of Rs. 9300-34,800/- plus Grade Pay of Rs.4800/- with effect from 01.02.2016(FN) or the date of taking over charge in the cadre of Assistant Accounts Officer in this office, whichever is later.

2. Posting order will be issued separately.

M. MUKHERJEE
Deputy Accountant General (Admn.)

The 31st March 2016

No. Admn.I/1034-XXXIII/2015-16/ 414—Under kind orders of the Principal Accountant General (A&E), West Bengal dated 29.03.2016 Shri Chandan Das-I, Supplementary S.A.S (March, 2015) Examination passed Sr. Accountant, now functioning as Asstt. Accounts Officer (Ad hoc) is promoted to the cadre of Assistant Accounts Officer in the Pay Band of Rs. 9300-34,800/- plus Grade Pay of Rs.4800/- with effect from 01.04.2016(FN) or the date of taking over charge in the cadre of Assistant Accounts Officer in this office, whichever is later.

2. Posting order will be issued separately.

M. MUKHERJEE
Deputy Accountant General (Admn.)

The 22nd April 2016

No. Admn.I/1034-XXXIII/2016-17/ 17—Under kind orders of the Accountant General (A&E), West Bengal dated 15.04.2016 Shri Sankar Roy, Supplementary S.A.S (March, 2015) Examination passed Sr. Accountant, now functioning as Asstt. Accounts Officer (Ad-hoc) is promoted to the cadre of Assistant Accounts Officer in the Pay Band of Rs.9300-34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4800/- with effect from 01.05.2016(FN) or the date of taking over charge in the cadre of Assistant Accounts Officer in this office, whichever is later.

2. Posting order will be issued separately.

M. MUKHERJEE
Deputy Accountant General (Admn.)

The 22nd August 2016

No. Admn.I/1034-XXXIII/2016-17/ 174—Under kind orders of the Accountant General (A&E), West Bengal dated 17.08.2016 Shri Arup Saha, Supplementary S.A.S (March, 2015) Examination passed Sr. Accountant, now functioning as Asstt. Accounts Officer (Ad hoc) is promoted to the cadre of Assistant Accounts Officer in Level-8 of Pay Matrix under C.C.S (RP) Rules, 2016 with effect from 01.09.2016(FN) or the date of taking over charge in the cadre of Assistant Accounts Officer in this office, whichever is later.

2. Posting order will be issued separately.

M. MUKHERJEE
Deputy Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
(OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES)

In the matter of Companies Act 1956 and of the following Companies

Ahmedabad-380013, the 17th March 2017

No. ROC/GUJ/560(5)/FTE/2016/12978—Notice is hereby given pursuant to sub – section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved :-

SR.NO.	CIN NO.	NAME OF THE COMPANY
1	U74140GJ2015PTC082603	YS FABRICS PRIVATE LIMITED
2	U52100GJ2011PTC064074	SWAYAM TRADELINK PRIVATE LIMITED
3	U14101GJ2013PTC074469	VISHNU GRANITE & MARBLE PRIVATE LIMITED
4	U72900GJ2015PTC083750	RAINGOLD LIFECARE IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
5	U74999GJ2016FTC093509	IT MANAGEMENT & RESOURCES INDIA PRIVATE LIMITED
6	U72900GJ2007PTC051854	INFIN WEB SERVICES PRIVATE LIMITED
7	U72900GJ2015PTC081812	PERPETUAL SOFTWARES PRIVATE LIMITED
8	U80903GJ2012PTC072405	SAI HEMVAN EDUMART PRIVATE LIMITED
9	U24100GJ2014PTC080846	VISHMIT PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED
10	U52100GJ2008PTC054709	SHAKTI MULTITRADE PRIVATE LIMITED
11	U63000GJ2014PTC079004	HABIB-AL-MUTWAKKIL TOURS & TRAVELS PRIVATE LIMITED
12	U72900GJ2015PTC084728	SHAH SOFTWARE PRIVATE LIMITED
13	U24297GJ2012PTC071486	IMMERSION COATINGS PRIVATE LIMITED
14	U45201GJ2008PTC054902	BALLARD INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
15	U67120GJ2010PTC061325	DHARMIK STOCKBROKING SERVICES PRIVATE LIMITED
16	U27106GJ2004PTC043592	DEVESHWAR STEELS PRIVATE LIMITED
17	U26990GJ2011PTC065414	ECOPOZZO ASHCRETE PRIVATE LIMITED
18	U74220GJ2012PTC069496	ENVISAFE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
19	U01119GJ2014PTC078954	SHRIKUNJ AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
20	U74140GJ2015PTC083832	ESCROW DEAL PRIVATE LIMITED
21	U45400GJ2013PTC075943	DEV ASHISH BUILDCON PRIVATE LIMITED
22	U74140GJ2015OPC082081	REBATE SOLUTIONS (OPC) PRIVATE LIMITED

VIJAY KHUBCHANDANI
Registrar of Companies
Gujarat, Dadra & Nagar Haveli

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART III—SEC.1]

**BANSHI DHAR
DUBEY**

Digitally signed by BANSHI DHAR
DUBEY

Date: 2017.04.01 11:36:31 +05'30'